

## व्यापार की योजना

आय सृजन गतिविधि-अचार चटनी/अचार बनाना

द्वारा

लक्ष्मी - स्वयं सहायता समूह



एसएचजी/सीआईजी नाम	:	Luxmi
वीएफडीएस नाम	:	Bhanth
श्रेणी	:	रे
विभाजन	:	नूरपुर

के तहत तैयार किया गया-

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका में सुधार के लिए परियोजना  
(जेआईसीए सहायता प्राप्त)

## विषयसूची

क्र.सं.	विवरण	पेज/एस
1	परिचय	3
2	एसएचजी/सीआईजी का विवरण	3
3	लाभार्थियों का विवरण	4
4	गांव का भौगोलिक विवरण	4
5	कच्चे माल का चयन एवं बाजार क्षमता	4
6	अचार चटनी/अचार बनाने की व्यवसाय योजना	5
7	अचार चटनी/अचार बनाने का व्यवसाय अनुपालन	6
8	विभिन्न प्रकार के आचार/अचार	7
9	स्वोट अनालिसिस	7
10	अचार चटनी/अचार बनाने के उपकरण	8
11	अचार चटनी/अचार बनाने का कच्चा माल	8
12	उत्पादन की लागत (मासिक)	9
13	लागत लाभ विश्लेषण (मासिक)	10
14	एसएचजी में निधि प्रवाह की व्यवस्था	10
15	प्रशिक्षण क्षमता निर्माण कौशल उन्नयन	10
16	आय के अन्य स्रोत	11
17	निगरानी विधि	11
18	टिप्पणी	11
	समूह के सदस्यों की तस्वीरें	

## 1. परिचय

अचार/अचार दुनिया भर में खाने की मेज का बहुत महत्वपूर्ण घटक है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। अचार/अचार में विभिन्न प्रकार की विविधता का उपयोग किया जाता है और यह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल, स्वाद और स्वाद के आधार पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है। लोगों की खान-पान की आदत.

अचार बनाने के व्यवसाय का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि इसे समूह की वित्तीय क्षमता के अनुसार शुरू किया जा सकता है और बाद में किसी भी समय जब एसएचजी के वित्तीय पोर्टफोलियो में सुधार होता है तो व्यवसाय को किसी भी स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार जब आपका उत्पाद और उसका स्वाद ग्राहकों को पसंद आ जाएगा तो व्यवसाय तेजी से फलेगा-फूलेगा। हालाँकि, SHG ने इस IGA (आय सृजन गतिविधि) में शामिल होने से पहले विभिन्न पहलुओं पर बहुत सावधानी से विचार किया है। इसलिए एसएचजी ने अपनी निवेश क्षमता, विपणन और प्रचार रणनीति के अनुसार एक विस्तृत व्यवसाय योजना तैयार की है और विस्तृत कार्य योजना पर यहां चर्चा की जाएगी:

## 2. एसएचजी/सीआईजी का विवरण

1	एसएचजी/सीआईजीनाम	::	Luxmi
2	वीएफडीएस	::	Bhanth
3	श्रेणी	::	रे
4	विभाजन	::	नूरपुर
5	गाँव	::	Bhanth
6	अवरोध पैदा करना	::	अंत
7	ज़िला	::	कांगड़ा
8	एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	12-स्त्री
9	गठन की तिथि	::	15-5-2023
10	बैंक खाता संख्या.	::	50075949346
11	बैंक विवरण	::	कांगड़ा सेंट्रा को-ऑप। बैंक लिमिटेड
12	एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	::	20/-
13	कुल बचत	::	440/-
14	कुल अंतर-ऋण	::	/-
15	नकद ऋण सीमा	::	/-
16	चुकौती स्थिति	::	/-
17	ब्याज दर	::	1%

### 3. लाभार्थियों का विवरण:

क्रमांक	नाम (श्रीमती)	आयु	वर्ग	आय स्रोत	पता
1	Sunita Devi W/O Rajmal	38	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि	वीपीओ भांठ तहसील फ़तेहपुर जिला। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
2	Asha Devi W/O Chaman Lal	42	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि	वीपीओ भांठ तहसील फ़तेहपुर जिला। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
3	Bhano Devi W/O Avtar Singh	35	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि	वीपीओ भांठ तहसील फ़तेहपुर जिला। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
4	मीना कुमारी पत्नी मेलकीत सिंह	44	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि	वीपीओ भांठ तहसील फ़तेहपुर जिला। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
5	परवीन कुमारी पत्नी चूहड़ सिंह	45	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि	वीपीओ भांठ तहसील फ़तेहपुर जिला। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
6	Sunita Devi W/O Ganesh Dutt	48	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि	वीपीओ भांठ तहसील फ़तेहपुर जिला। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
7	Sushma devi W/O Joginder	46	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि	वीपीओ भांठ तहसील फ़तेहपुर जिला। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
8	अंजुई बाला पत्नी शिव	44	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि	वीपीओ भांठ तहसील फ़तेहपुर जिला। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
9	पूनम देवी पत्नी रविंदर सिंह	46	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि	वीपीओ भांठ तहसील फ़तेहपुर जिला। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
10	Kamlesh Kumari W/O Hardev	47	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि	वीपीओ भांठ तहसील फ़तेहपुर जिला। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
11	Shrishta devi w/O Gojju Ram	39	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि	वीपीओ भांठ तहसील फ़तेहपुर जिला। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
12	अनिता कुमारी पत्नी सुखदेव सिंह	41	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि	वीपीओ भांठ तहसील फ़तेहपुर जिला. कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

#### 4. गांव का भौगोलिक विवरण

1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	12 किमी
2	मुख्य सड़क से दूरी	::	1 कि.मी
3	स्थानीय बाज़ार का नाम और दूरी	::	तलवाड़ा-7 किमी, फ़तेहपुर-27 किमी
4	मुख्य बाज़ार का नाम एवं दूरी	::	तलवाड़ा-7 किमी, फ़तेहपुर-27 किमी
5	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी	::	तलवाड़ा-7 किमी, फ़तेहपुर-27 किमी
6	मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पाद होगा बेचा/विपणन किया जाए	::	तलवाड़ा-7 किमी, फ़तेहपुर-27 किमी

#### 5. कच्चे माल का चयन एवं बाजार क्षमता

विस्तृत चर्चा और विचारशील प्रक्रिया के बाद एसएचजी के सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि अचार चटनी/अचार बनाने का यह आईजीए उनके लिए उपयुक्त होगा। लोग खाने के साथ अलग-अलग तरह के अचार का सेवन करते हैं और यह स्वाद बढ़ाने का काम करता है। अचार का उपयोग सैंडविच, हैमबर्गर, हॉटडॉग, परांठे और पुलाव आदि जैसे भोजन में टॉपिंग के रूप में भी किया जाता है।

आम और नींबू के अचार दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय किस्म हैं। यहां विशेष रूप से इस एसएचजी में हम मुख्य रूप से स्थानीय और आसानी से उपलब्ध कच्चे माल जैसे लहसुन, अदरक, गल-गैल (पहाड़ी नींबू), लिंगड़, आम, नींबू, मशरूम, हरी मिर्च, मछली, चिकन और मटन आदि पर ध्यान केंद्रित करेंगे।


कई बड़े और छोटे विक्रेताओं की मौजूदगी के कारण अचार बाजार अत्यधिक खंडित है और बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कीमत, गुणवत्ता, नवाचार, प्रतिष्ठा, सेवा, वितरण और प्रचार जैसे कारकों के आधार पर प्रतिस्पर्धा होती है। अचार बनाना छोटे पैमाने पर और मुख्य रूप से गृहिणियों और अन्य महिला कार्यबल के लिए एक आदर्श व्यवसाय है। इस मामले में यह महसूस किया गया कि जब भांठ, नूरपुर और कांगड़ा के अचार विक्रेता कमांड क्षेत्र में अपना अचार बेच सकते हैं तो यह एसएचजी ऐसा कर सकता है। यह अधिक सख्ती और तेजी से ऐसे बाहरी लोगों से मुकाबला करता है।

## 6. अचार चटनी/अचार बनाने की व्यवसाय योजना

किसी भी IGA (आय सृजन गतिविधि) को शुरू करने से पहले विस्तृत और संरचित चर्चा के साथ एक अनुकूलित व्यवसाय योजना तैयार करना बहुत आवश्यक है। व्यवसाय योजना निवेश, परिचालन गतिविधियों, विपणन और शुद्ध आय/रिटर्न की स्पष्ट अवधारणा प्राप्त करने में मदद करती है। व्यवसाय को बढ़ाने की गुंजाइश की भी स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है और इसके अलावा यह बैंकों से वित्त की व्यवस्था करने में भी मदद करता है। व्यवसाय पर लौटने से पहले बाजार सर्वेक्षण करने की सलाह दी जाती है और अच्छी बात यह है कि इस एसएचजी के समूह के सदस्यों को बाजार अध्ययन के बारे में अच्छी तरह से पता है। मुख्य रूप से एसएचजी ने अपने क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार के अचार की मांग का अध्ययन किया और मुख्य रूप से स्थानीय बाजार को लक्ष्य के रूप में रखा गया। एसएचजी के सदस्यों ने आस-पास के बाजारों और बड़े पैमाने पर लोगों की पसंद का अध्ययन करके आईजीए को सावधानीपूर्वक चुना है और इस गतिविधि को आईजीए के रूप में शुरू करने की क्षमता देखी है।

अधिकांश कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध है और लिंगड़ प्राकृतिक रूप से उगने वाला फर्न एसपीपी है। आस-पास के नम क्षेत्रों और नालों में निःशुल्क। इस समूह के आसपास की छोटी बस्तियों के लोगों की इस लिंगड़ अचार के प्रति स्वाभाविक रुचि है, जो अन्यथा खुले बाजारों में उपलब्ध नहीं है।

## अचार चटनी बनाने की प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट



### 7. अचार चटनी/अचार बनाने का व्यवसाय अनुपालन

अचार एक खाद्य पदार्थ है इसलिए राज्य सरकार के विभिन्न नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। चूंकि आईजीए को शुरुआत में छोटे पैमाने पर लिया जा रहा है, इसलिए इन कानूनी मुद्दों को एसएचजी सदस्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रबंधन लाइसेंस प्राप्त करके संबोधित किया जाएगा। अधिकारी। व्यवसाय घर से संचालित किया जा रहा है इसलिए स्व-रोजगार समूहों के लिए कर नियमों का नियमानुसार ध्यान रखा जाएगा।

## 8. विभिन्न प्रकार के अचार/आचार

जैसा कि पहले अध्याय में चर्चा की गई है, अचार बनाने के लिए ज्यादातर स्थानीय और आसानी से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग किया जाएगा। अचार कई स्वादों और स्वादों के होते हैं, जबकि एसएचजी मुख्य रूप से उस क्षेत्र और बाजार में पारंपरिक और अधिक आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले अचार पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसे यह एसएचजी पूरा करने का इरादा रखता है। एक बार एसएचजी का व्यवसाय बढ़ने पर मांग आधारित गुणवत्ता वाला अचार तैयार किया जाएगा और ग्राहकों के स्वाद के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा।

सबसे लोकप्रिय और आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ अचार हैं आम, बांस के अंकुर, मशरूम, लहसुन, अदरक, लिंगड़, मछली और चिकन आदि। कभी-कभी मिश्रित अचार जैसे कि लहसुन - अरबी (घिंडयाली) आम - हरी मिर्च, मिक्स वेज। इत्यादि भी लक्षित ग्राहकों के स्वाद एवं मांग के अनुरूप तैयार किये जायेंगे।

## 9. स्वोट अनालिसिस

### ❖ ताकत-

- कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा पहले से ही गतिविधि की जा रही है
- कच्चा माल आसानी से उपलब्ध
- विनिर्माण प्रक्रिया सरल है
- उचित पैकिंग और परिवहन में आसान
- उत्पाद का शेल्फ जीवन लंबा है
- घर पर बनाया, कम लागत

### ❖ कमजोरी-

- विनिर्माण प्रक्रिया/उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव।
- अत्यधिक श्रम-गहन कार्य।
- अन्य पुराने और प्रसिद्ध उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करें

### ❖ अवसर-

- लाभ के अच्छे अवसर हैं क्योंकि उत्पाद की लागत अन्य समान श्रेणियों के उत्पादों की तुलना में कम है
- में उच्च मांग-दुकानें-फास्टफूड स्टॉल-रिटेलर्स-थोक विक्रेता-कैंटीन-रेस्टोरेंट-शेफ के सैंडविच-गृहिणियां
- बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ विस्तार के अवसर भी हैं।
- दैनिक/साप्ताहिक खपत और सभी मौसमों में सभी खरीदारों द्वारा उपभोग

### ❖ धमकियाँ/जोखिम-

- विशेषकर सर्दियों और बरसात के मौसम में विनिर्माण और पैकेजिंग के समय तापमान, नमी का प्रभाव।
- कच्चे माल की कीमत में अचानक वृद्धि
- प्रतिस्पर्धी बाजार

## 10. अचार चटनी/अचार बनाने के उपकरण

उपकरण या मशीनरी की आवश्यकता मूल रूप से हमारे संचालन के तरीके और योजना के आकार पर निर्भर करती है। इस मामले में एसएचजी शुरुआत में छोटे और प्रबंधनीय पैमाने पर शुरू होगी। इसलिए, रसोई में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और सहायक उपकरण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, इसके अलावा योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए कुछ मशीनरी खरीदनी होगी और इसलिए कुछ बुनियादी उपकरणों को भी खरीद में शामिल किया जाएगा जिससे एसएचजी को मदद मिलेगी। अपनी गतिविधियों को बड़े स्तर पर बढ़ाना। योजना शुरू करने के लिए प्रारंभ में निम्नलिखित उपकरण खरीदे जाएंगे:

A. पूंजीगत लागत		
क्रमांक।	उपकरण	लगभग लागत
1.	ग्राइंड मशीन	25000
2.	सब्जी निर्जलीकरणकर्ता	10000
3.	खाना बनाना व्यवस्था (चूल्हे के साथ वाणिज्यिक गैस सिलेंडर)	7000
4.	वजन मापने का पैमाना (2 नग)	3000
5.	पैकेजिंग/सीलिंग इकाई	5000
	कुल	<b>50000</b>

सी नियर नहीं।	बर्तन	मात्रा	यूनिट मूल्य	कुल राशि
1.	पत्तिला	2	2000	6000
2.	गत्ता	5	200	1000
4.	चाकू	7	100	700
		कुल		<b>7700</b>
		कुल पूंजीलागत		<b>57700</b>

## 11. अचार चटनी अचार बनाने का कच्चा माल

कच्चे माल का विवरण विभिन्न फलों, सब्जियों और नॉन वेज की आवश्यक उपलब्धता पर निर्भर करेगा। लेख. हालाँकि, मुख्य कच्चा माल आम, अदरक, लहसुन, मिर्च, लिंगड़, मछली, मटन, मशरूम, गैल-गैल, नींबू, नाशपाती, खुबानी आदि रहेगा। इनके अलावा विभिन्न मसाले, नमक, खाना पकाने का तेल, सिरका आदि होंगे। की खरीद की जाएगी। इसके अलावा प्लास्टिक जार, पाउच, लेबल और कार्टन जैसी पैकेजिंग सामग्री भी खरीदी जाएगी। बाजार की मांग के अनुसार पैकेजिंग 500 ग्राम, 1 किलो और 2 किलो के कंटेनर/पाउच में की जाएगी।

इसके अलावा एसएचजी एक विशाल कमरा किराए पर लेगा जिसका उपयोग परिचालन गतिविधियों, अस्थायी भंडारण और गांव में कमांड क्षेत्र के लिए किया जाएगा। प्रति माह किराया रु. माना गया है। 1500 प्रति माह. बिजली और पानी का शुल्क रुपये अनुमानित किया गया है। 1000 प्रति माह. फलों और सब्जियों की कीमत औसतन 20 रुपये आंकी गई है. 50 प्रति किलोग्राम और हमारे पास उपलब्ध जनशक्ति को ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह में कम से कम 200 किलोग्राम अचार का उत्पादन किया जाएगा और एक महीने में इसकी मात्रा 800 किलोग्राम होगी। तदनुसार, 800 किग्रा अचार की आवर्ती लागत की गणना निम्नानुसार की जाती है:

बी.आवर्ती लागत					
सी नियर नहीं।	विवरण	इकाई	मात्रा	इकाई लागत	कुल मात्रा
1.	कमरे का किराया	प्रति महीने	1	1500	1500
2.	पानी और बिजली प्रभार	प्रति महीने	1	1000	1000
3.	कच्चा माल	कि ग्रा	800	100	80000
4.	मसाले आदि	कि ग्रा	50	200	10000
5.	सरसों (सरसों) का तेल	कि ग्रा	60	250	15000
6.	पैकेजिंग सामग्री	कि ग्रा	15	100	1500
7.	परिवहन प्रभार	महीना	एल/एस	2000	2000
8.	क्लिनिकल दस्ताने, सिर कवर और एप्रॉन आदि।	महीना	एल/एस	3000	3000
कुल आवर्ती लागत					<b>114000</b>

ध्यान दें: समूह के सदस्य स्वयं कार्य करेंगे और इसलिए श्रम लागत शामिल नहीं की गई है और सदस्य अपने बीच पालन किए जाने वाले कार्य शेड्यूल का प्रबंधन करेंगे।

## 12. उत्पादन की लागत (मासिक)

क्रमांक।	विवरण	मात्रा
1.	कुल आवर्ती लागत	114000
2.	10% मूल्यहास महीने के पर पूंजी लागत (57700)	5770
	कुल	<b>119770</b>

आचार/अचार की बिक्री से मासिक औसत आय

सीनियर र नहीं।	विवरण	मात्रा	लागत	मात्रा
1.	अचार की बिक्री	900 किग्रा	200/किग्रा	180000

### 13. लागत लाभ विश्लेषण (मासिक)

सीनियर नहीं।	विवरण	मात्रा
1.	कुल आवर्ती लागत	114000
2.	कुल बिक्री राशि	180000
3.	शुद्ध लाभ	66000
4.	शुद्ध लाभ का वितरण	1. कुल बिक्री में से 1 <sup>अनुसूचित जनजाति</sup> आईजीए में आगे के निवेश के लिए हर महीने दस हजार रुपये रखे जाएंगे 2. कुल बिक्री में से शेष राशि को एसएचजी में आपातकालीन निधि के रूप में रखा जाएगा हिसाब-किताब <sup>1</sup> <sub>अनुसूचित जनजाति</sub> महीना

### 14. एसएचजी में निधि प्रवाह की व्यवस्था

सीनियर	विवरण	कुल मात्रा	परियोजना योगदान	स्वयं सहायता समूह योगदान
1.	कुल पूंजीगत लागत	57700	43275	14425
2.	कुल आवर्ती लागत	114000	0	114000
3.	प्रशिक्षण/ क्षमता निर्माण, कौशल उन्नयन	28000	28000	0
	कुल	199700	71275	128425

नोट: i) पूंजीगत लागत-75% पूंजीगत लागत परियोजना द्वारा और 25% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।

ii) आवर्ती लागत-एसएचजी द्वारा वहन की जाएगी

iii) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

## 15. प्रशिक्षण क्षमता निर्माण कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन की लागत पूरी तरह से परियोजना पर निर्भर करेगी। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका इस घटक के तहत ध्यान रखा जाना प्रस्तावित है:

- i) कच्चे माल की लागत प्रभावी खरीद
- ii) गुणवत्ता नियंत्रण
- iii) पैकेजिंग और विपणन प्रथाएँ
- iv) वित्तीय प्रबंधन और संसाधन जुटाना

## 16. आय के अन्य स्रोत

एसएचजी द्वारा आय के अन्य स्रोत भी तलाशे जा सकते हैं जैसे कि ग्रामीणों और आसपास के स्थानीय लोगों की आम, आंवला, दालें, गेहूं, मक्का आदि पीसना। यह आईजीए में अतिरिक्तता होगी और बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है।

## 17. निगरानी विधि

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी और अनुमान के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- एसएचजी को प्रत्येक सदस्य के आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की भी समीक्षा करनी चाहिए और अनुमान के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

निगरानी के लिए कुछ प्रमुख संकेतक इस प्रकार हैं:

- समूह का आकार
- निधि प्रबंधन
- निवेश
- आय पीढ़ी
- उत्पाद की गुणवत्ता

## 18. टिप्पणी

Luxmi (SHG) Ward No-8



Sunita Devi  
Pradhan



Asta Devi  
Secretary



Shushma Devi



Poonam Devi



Meena Kumari



Kamlesh Kumari



Anju Bala



Bhano Devi



Snita



Parveen Kumari



Poonam Bala

~~Pradev Choudhary~~

## Resolution cum Group Consensus Form

It is decided in the general house meeting of the group Luxmi held on 23-12-2023 at Bhanth that our group will undertake the Pickle making as livelihood income generation activity Under the project for implementation of Himachal Pradesh forest ecosystem Management and livelihood (JICA assisted).

Sumita Devi

Signature of Group President

Group Pardhan  
S.H.G., VFDS Bhanth (Ward No 8)  
G.P. Sathana, Teh. Fatehpur  
Distt. Kangra (H.P.)

Alka Devi

Signature of Group Secretary

## Business Plan Approval by VFDS & DMU

Luxmi Group will undertake the Pickle making as livelihood Income Generation Activity under the project for implementation of Himachal Pradesh forest ecosystem Management and livelihood (JICA assisted). In this regard business plan of amount Rs. 199700/- has been submitted by group on 23/12/2023 and the business plan has been approved by the VFDS Bhanth

Business plan is submitted through FTU for further action please.

Thank you

Signature of Group President

Sumita Devi

Signature of Group Secretary

Ashay Devi

Signature of President VFDS

Pardhan  
Pawan Kumar  
Village Forest Development Society  
Bhanth, G.P. Sathana, Teh. Fatehpur  
Distt Kangra (H.P.)

Group Pardhan  
S.H.G. VFDS Bhanth (Ward No 8)  
G.P. Sathana, Teh. Fatehpur  
Distt. Kangra (H.P.)

[Signature]  
Approve

DMU cum Nurpr  
DMU - cum - DFO  
Nurpur Forest Division  
Nurpur